

## प्रेस नोट दिनांक- 17-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रवि सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त नन्द लाल सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लिटर कच्ची शराब के साथ तथा उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र रामकृपाल निषाद निवासी बरगदही का पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे पंजीकृत किये गये।

### बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची व 17 क्वार्टर देशी शराब

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रवि सिंह थाना राजापुर
2. उनि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 03/2021 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¼ पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त केशव उर्फ बूदा पुत्र विष्णु कुमार रैकवार निवासी अर्जुनपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर
2. उ0नि0 श्री कन्हैयालाल पाण्डेय
3. आरक्षी बृजभान

(ii). वरि0 उ0नि0 श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 12/2021 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¼ पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त राममिलन पुत्र गल्लू यादव निवासी चरदाहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0 उ0नि0 श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया थाना मऊ
2. आरक्षी ज्ञान सिंह

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 17.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा राजापुर बस स्टैण्ड, लूप लाइन चौराहा, हनुमानगंज में, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड ट्रैफिक चौराहा मिशन रोड एलआईसी सीआईसी रोड ,मेगा बाजार सीआईसी ,कचहरी परिसर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।